



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019  
Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941–August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/ 7293.**-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Bissau has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Bissau. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

**By Order,**

Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Government**

**कार्यालय नगर पालिका मण्डल बिसाऊ (झुंझुनु)**

प्रारूप (क)

क्र.सं.	वार्ड संख्या	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
1.	1.	जटिया कुआं से पश्चिम – दक्षिण न0पा0 सीमा को लेते हुए पूर्व में हाजी इब्राहीम व्यापारी से मुश्ताक के बंगले से पूर्व मस्जिद तैलियान को दाया छोड़ते हुए अलादीन की दुकान से उतर में इब्राहीम मास्टर से पश्चिम में कब्रिस्तान रोड़ से उतर पश्चिम प्रथम बिन्दु तक।
2.	2.	हाकम अली चौहान से चुरु के कच्चे रास्ते – 2 चलकर पश्चिम में नगरपालिका सीमा तक वहां से दक्षिण में रेलवे प्लेटफार्म के बीच से पूर्व में स्टेशन रोड़-2 चलकर हरिराम माली कुआं से उतर नगरपालिका फाटक से उतर – पश्चिम ईदगाह के बांया लेते हुए उतर में हाकम अली चौहान तक।
3.	3.	न0पा0 फाटके के पास विश्भरदयाल के मकान को दायां शामिल करते हुए उतर-पश्चिम में वासु माली को दायां शामिल करते हुए ईदगाह को बांया छोड़कर उतर में रोड़-2 चलकर दायां शामिल करते हुए जाफर खोखर फार्म हाउस को शामिल कर पूर्व में हाजी इब्राहीम के बांया छोड़कर नदीम के मकान को दायां शामिल करते हुए खुशी मोहम्मद के घर को दांया शामिल कर गुलाम हुसैन को बांया छोड़कर शौकत को बांया छोड़कर पश्चिम घीसु खां को दांया शामिल कर दक्षिण यासीन को दांया शामिल कर पश्चिम किशन नाई को दांया छोड़कर सफी मोहम्मद को बांया शामिल कर दक्षिण विश्भरदयाल के मकान तक।
4.	4.	पश्चिम दरवाजे से सीधे पश्चिम में दांया शामिल करते हुए यूनिस के बाड़े को बांया छोड़ते हुए उतर में दांया शामिल कर नथमल नाई को लेते हुए पूर्व में यासीन को बांया छोड़ते हुए उतर में कासम खां को बांया छोड़ते हुए पूर्व में घीसु खां को बांया छोड़ते हुए शौकत को दांया लेते हुए उतर में गुलाम हुसैन को दांया

		लेते हुए पूर्व में अलीशेर को दांया लेते हुये शहरपना दीवार-2 पश्चिमी दरवाजे तक
5.	5.	पश्चिमी दरवाजे से पश्चिम में भौलाराम जांगीड़ से दक्षिण में चलकर मौलाना आजाद स्कूल को दांया छोड़कर पूर्व - दक्षिण में अब्दुल करीम पूर्व अध्यक्ष के घर को बांया शामिल कर व हाकिम नानू को बांया शामिल कर उतर में चलकर सफी नाई से शहरपना दीवार-दीवार तक चलकर प्रथम बिन्दु तक।
6.	6.	द्वारका प्रसाद माली के नोहरे से पश्चिम स्टेशन रोड़-2 चलकर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के अन्दर से न0पा0 सीमा तक वहां से दक्षिण में रेलवे अन्दरपास के नीचे से नगरपालिका सीमा तक वहां से उतर चलकर मदरसा को दाहिना छोड़ते हुए पूर्व में अब्दुल करीम पूर्व अध्यक्ष की कोठी से पूर्व लालटेन वाले मकान से उतर वाटरवक्स टंकी को शामिल कर पूर्व में रोड़-2 चलकर मौलाना आजाद स्कूल को बांया शामिल कर उतर में प्रथम बिन्दु तक
7.	7.	इनामुल मदरसा से दक्षिण चलकर रेलवे अन्दरपास के अन्दर से पश्चिम नन्दपुरा बालाजी को लेते हुए पूर्व में गौशाला बीड़ से महनसर रोड़ उतर गौशाला कुआं को दांया छोड़कर उतर में हरिजन मोहल्ला स्कूल को दांया छोड़ते हुए हरिजन बस्ती को शामिल करते हुए रोड़-रोड़ चलकर अब्दुल करीम की कोठी को बांया शामिल कर पश्चिम में प्रथम बिन्दु तक
8.	8.	न0पा0 के सामुदायिक शौचालय से दक्षिण न्यू मार्केट (कॉपलेक्स) से पश्चिम चलते हुए दांया शामिल कर सीधे रोड़-2 हरिजन बस्ती को बांया छोड़कर पश्चिम में सीधे चलकर हारुन हिन्दुस्तानी के मकान को बांया छोड़कर उतर में पानी की टंकी को बांया छोड़कर पश्चिम में चलकर सीधे मौलाना आजाद स्कूल को बांया छोड़कर पूर्व दक्षिण अब्दुल करीम पूर्व अध्यक्ष व हकीम नानू को बांया छोड़कर उतर में चलकर सफी नाई को बांया छोड़ शहरपना दीवार-2 चलकर प्रथम बिन्दु तक।
9.	9.	महनसर रोड़ से दक्षिण में बांया शामिल करते हुए न0पा0 सीमा-2 चलकर पूर्व में गैस एजेन्सी को शामिल कर न0पा0 सीमा-2 चलकर नई आबादी को बांया शामिल कर उतर में चलकर साईं ग्रीनसीटी दरवाजे से होते हुए महेश प्रजापत को दांया छोड़कर पश्चिम में बांया शामिल कर मुश्ताक खां सर्किल से बांया शामिल करते हुए सांवरमल सैनी के घर से पश्चिम में बांया लेते हुए रामनिरंजन सहल को दांया छोड़कर दक्षिण में सीधे चलकर चुरु-झुन्झुनूं रोड़ से पश्चिम में बांया शामिल कर महनसर रोड़ तक
10.	10.	महेश प्रजापत को बांया शामिल कर ग्रीनसीटी दरवाजे से होते हुए बांया शामिल करते हुए न0पा0 सीमा -2 चलकर पूर्व में पुलिस थाना को शामिल कर उतर में जगदीश मुनडिया के मकान को लेते हुए पूर्व में बी.एस.एन.एल. टावर को छोड़ते हुए दक्षिण में चलकर दरोगा शमशान को दांया छोड़ते हुए पश्चिम में चुरु-झुन्झुनूं रोड़ को बांया शामिल कर महेश प्रजापत तक
11.	11.	गौशाला कुर्वे को दांया शामिल करते हुए उतर में हरिजन स्कूल को दांया शामिल कर पूर्व में रोड़-रोड़ चलकर दांया शामिल करते हुए कालू खां की दुकान को शामिल कर सीधे बांया छोड़ते हुए फनीचर हाउस को दांया शामिल कर दक्षिण में सिगतियों की छत्री को बांया छोड़कर जीणमाता मंदिर को दांया शामिल कर ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट को बांया छोड़ते हुए विश्वकर्मा फनीचर हाउस को शामिल कर पश्चिम में रोड़-2 चलकर दांया शामिल करते हुए मुश्ताक खां सर्किल से दांया शामिल करते हुए सांवरमल सैनी को बांया छोड़कर पश्चिम में रामनिरंजन सहल को दांया शामिल कर दक्षिण में सीधे चलकर चुरु-झुन्झुनूं रोड़ से पश्चिम में दांया शामिल कर गौशाला कुर्वे तक।
12.	12.	सिगतियों की छत्री से चौकी स्कूल को दांया शामिल कर सीधे पूर्व में दांया शामिल

		कर कुआं नायकान को शामिल करते हुए BSNL को शामिल कर दक्षिण में दरोगा शमशान को दाया शामिल कर चुरु-झुन्झुनूं रोड पर पश्चिम चलते हुए संजय जाट के कॉम्प्लेक्स को बांया छोड़ते हुए सिगतियों की छत्री तक।
13.	13.	मोहनलाल की दुकान से दक्षिण चलकर बांया शामिल करते हुए नायकान कुआ को दाहिना छोड़ते हुए पूर्व में BSNL आफिस को दाया छोड़कर धोलपालियां जोहड़ को शामिल कर पूर्व में 132 जी.एस.एस. को शामिल कर नगरपालिका सीमा को लेते हुए उतर में दाल मील को शामिल कर हुनमान मंदिर एवं शिक्षण संस्थान को शामिल बांया शामिल कर पश्चिम में सड़क सड़क चलकर शिवजी मन्दिर को बांया शामिल कर दक्षिण में चलकर रामावतार के बाडे को शामिल कर पश्चिम में प्रथम बिन्दु तक।
14.	14.	बागला मन्दिर से पूर्व में कुआ गुसाईयान को बांया शामिल कर पूर्व में दुलचास के रास्ते से विशम्भरदयाल को बांया शामिल कर उतर में शिव मन्दिर को दाया छोड़ते हुए पश्चिम में सड़क - 2 चलकर दाया शामिल करते हुए भवंरलाल को शामिल उतर में रामगोपाल पुरोहित को बांया शामिल कर चेजारान बस्ती को लेते हुए उम्मेद खां के घर को दाहिना छोड़कर बागला मन्दिर तक।
15.	15.	बागला मन्दिर से पश्चिम दाया शामिल कर उतर में मिश्रों की हवेली को दाया शामिल कर पूर्व में KGN हिन्दी मिडियम स्कूल को दाया शामिल करते हुए पूर्व में दाया शामिल करते हुए कब्रिस्तान के गेट से दक्षिण में गौशाला बीड़ की दीवार-2 से गांगियासर रोड से पश्चिम में ओमजी जांगीड़ को बांया छोड़कर जाफर अली वकील से दाया लेते हुए रामगोपाल पुरोहित को बांया छोड़ते हुए पश्चिम में उम्मेद खां से पश्चिम प्रथम बिन्दु तक।
16.	16.	झुन्झुनूंवाला हवेली (डॉ. सहारण का मकान) से दाया शामिल कर पूर्व में चलकर दालमील को छोड़ते हुए दक्षिण -पूर्व में दाया शामिल करते हुए श्रीराम बगीची से दक्षिण में दाया शामिल करते हुए सुरेश के मकान को बांया छोड़ते हुए पश्चिम में सीधे चलकर गौरियान मस्जिद को दाया शामिल करते हुए जयनारायण तुनवाल को बांया छोड़कर उतर में मुराद खां को दाया शामिल करते हुए अमरनाथ मास्टर को बांया छोड़कर हाईटेन एकेडमी को बालासरियों की हवेली को बांया छोड़कर अलादीन खां को पोस्टमेन को दाया शामिल करते हुए प्रथम बिन्दु तक।
17.	17.	पुराने PNB बैंक को बांया शामिल कर दक्षिण में सीधे चलकर गणगौर कुवे को शामिल कर दक्षिण में शिवकुमार माली की दुकान को बांया शामिल करते हुए पूर्व में बांया शामिल करते हुए दक्षिण में बनारसीलाल जांगीड़ से पूर्व में जयनारायण तुनवाल से उतर श्यामजी पूर्व उपाध्यक्ष को बांया शामिल कर मुराद खां को दाया छोड़ते हुए अमरनाथ मास्टर को बांया शामिल कर अलादीन खां पोस्टमेन को दाया छोड़ते हुए जोशियों की हवेली को बांया शामिल कर पश्चिम रोड-2 चलकर पुराने PNB बैंक तक
18.	18.	पश्चिमी दरवाजे से दक्षिण में शहरपना दीवार-दीवार चलकर पूर्व में सुभाष शर्मा के मकान को बांया शामिल कर उतर में गणगौर कुवें को दाया छोड़कर उतर में ऋषि सुनार को बांया शामिल करते हुए उतर में महनसरियों की दुकान को बांया शामिल करते हुए गांधी चोक से पश्चिम में बिरमीवालों के मकान को बांया शामिल कर पश्चिम दरवाजे तक
19.	19.	बगड़ियों की दुकान से उतर में बांया शामिल करते हुए सीधे रोड़-रोड़ चलकर दर्जियों के मकान से आगे कुआ से आगे पूर्व में चलकर बांया शामिल करते हुए जोशियों के कमरे को दाया छोड़ते हुए उतर - पश्चिम में जोशियों के मकान को लेते हुए शितला मंदिर को शामिल कर पश्चिम में तैलियान मस्जिद से दक्षिण में शहरपना दीवार-दीवार होते हुए पश्चिमी दरवाजे से पूर्व में बांया शामिल कर बुढिया महादेव मंदिर को शामिल कर दक्षिण में न0पा0 को बांया शामिल कर पूर्व

		में बगडियों की दुकान तक
20.	20.	रवि फेन्सी स्टोर नन्दलाल क्याल से पूर्व में बांया शामिल कर दालमील को बांया शामिल कर उतर में शिशपाल चेजरा के नोहरे से पश्चिम विद्युत ट्रांसफार्मर से उतर पश्चिम में दरगाह को बांया शामिल करते हुए धोबियों को बांया शामिल करते हुए खाकीजी खुर्रा से पश्चिम रूंगटों की हवेली को बांया शामिल करते हुए जोशियों के कमरे को बांया शामिल कर पश्चिम में बांया शामिल करते हुए कुआं व दर्जियों के मकान को शामिल कर दक्षिण में रवि फेन्सी स्टोर तक
21.	21.	महेश कुमार शर्मा से उतर दांया शामिल करते हुए झुन्झुनू वालों की हवेली को व रूंगटा की धर्मशाला को बांया छोड़ते हुए पूर्व उतर में सुरेखा संस्कृत स्कूल व सदीक सिक्का को दांया शामिल कर जलदाय विभाग व गोगामेड़ी को बांया छोड़कर कब्रिस्तान तक व कब्रिस्तान से पश्चिम में सीधे रोड़-2 चलकर दांया शामिल करते हुए के.जी.एन. स्कूल हिन्दी को बांया छोड़कर पश्चिम में दायां शामिल करते हुए महेश कुमार के घर तक।
22.	22.	रूंगटों की धर्मशाला को बांया छोड़कर उतर में खटीकान मोहल्ले को दांया शामिल करते हुए सीधे रोड़-2 चलकर राणासर रोड़ होते हुए दांया शामिल कर डाकिड़ों के कुवें को शामिल कर पूर्व में न0पा0 सीमा को लेते हुए दक्षिण में सीमा-2 चलकर शमशान को दांया शामिल कर गोगामेड़ी को दांया शामिल कर पश्चिम में जलदाय विभाग को लेते हुए खटीकान स्कूल को शामिल पश्चिम में प्रथम बिन्दु तक
23.	23.	मनवर धोबी के घर से पश्चिम दरगाह को छोड़ते हुए धोबियों को बांया छोड़ कर खाकीजी मंदिर को दांया शामिल करते हुए उतर में महेन्द्र खटीक के नोहरे से पूर्व में नारायण रैगर के घर से दक्षिण में सीधे रोड़-2 रूंगटा धर्मशाला को दांया शामिल करते हुए झुन्झुनुवालों की हवेली को लेते हुए शिशपाल के नोहरे को बांया छोड़कर पश्चिम में मनवर धोबी तक
24.	24.	शितला चोक से पश्चिम दाया बांया शामिल करते हुए अलादीन की दुकान को बांया छोड़कर सज्जन दरोगा के नये मकान को लेते हुए उतर में इब्राहीम मास्टर को बांया छोड़ते हुए पूर्व में मालियों को शामिल कर मस्जिद को शामिल कर पूर्व में जटिया स्कूल के आगे मुख्य सड़क तक दक्षिण में राधेश्याम प्रजापत के मकान से पूर्व में मांगीलाल प्रजापत को शामिल कर दक्षिण में खाकीजी खुर्रा से पश्चिम दांया शामिल कर शितला चोक तक।
25.	25.	जोशियों की बगीची से पश्चिम दांया शामिल कर रोड़-2 चलकर राधेश्याम प्रजापत को बांया छोड़ते हुए उतर में जटिया स्कूल के गेट से पश्चिम में लीलगरों की मस्जिद व मदन लीलगर को छोड़ते हुए युसुफ मास्टर को शामिल कर कब्रिस्तान रोड़ से उतर पश्चिम होते हुए चुरू-बिसाऊ रोड़ से पूर्व में राणासर रोड़ से दक्षिण बांया शामिल कर रोड़-2 चलकर प्रथम बिन्दु तक।

अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका, बिसाऊ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।